



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 7—अप्रैल 13, 2007 (चैत्र 17, 1929)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 7—APRIL 13, 2007 (CHAITRA 17, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued
by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई-400021, दिनांक 2 अप्रैल 2007

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 52वीं वार्षिक महासभा "चव्हाण सेंटर", जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरिमन पॉइंट, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र) में सोमवार दिनांक 25 जून 2007 को अपराह्न 3.30 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु होगी :-

'31 मार्च 2007 तक की केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट, बैंक का तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा तथा तुलन-पत्र और लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना'

ओम प्रकाश भट्ट
अध्यक्ष

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2007

सं. : यू. 16/53/2003 चि.2 (गुजरात) :--कर्मचारी राज्य बीमा
(साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां

महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त गुजरात द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. पी. जे. श्रीमाली	20.2.2007 से 19.2.2008	कलोल(गुजरात)

डॉ. कमलेश कालरा,
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 23 मार्च 2007

सं. : यू. 16/53/2003 चि.2 (पंजाब)--कर्मचारी राज्य बीमा
(साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां

महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त, चण्डीगढ़ (पंजाब) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. लैम्बर सिंह	12.2.2007 से 11.2.2008	(अमृतसर, छेहरटा, खासा, बेरका खासा, गोईदवाल, तरनतारन, (जंडियाला)
डॉ. कमलेश कालरा चिकित्सा आयुक्त		

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली-58, दिनांक 29 मार्च 2007

संख्या 2/1959/डी एल आई/ई. एक्स/89/भाग-I/02--जहाँ अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात्

उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप धारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम/एलयज बजाज लाइफ इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड/मेटलाइफ इण्डिया ग्रुप लाइफ इंशोरेंस/अबीवा लाइफ इंशोरेंस/आईएनजी वायश्या लाइफ इंशोरेंस/मैक्स न्यू यार्क लाइफ इंशोरेंस/टाटा एआईजी लाइफ इंशोरेंस/ की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभारी तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली, ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत डील प्रदान की है, तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है।

अनुसूची--1

क्रम सं.	संस्थान का नाम एवं पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	अ.के.भ.नि.आ. फाईल नं.
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स वायु बोधन उपकरण प्रा.लि., ए.-292/1, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020	डीएल/8842	01.12.94 से 30.11.95	एनजेड/छूट/डीएलआई/2005/डीएल(उत्तरी)/8842(1)
2.	मैसर्स फलैक्सट्रोनिक्स सोफ्टवेयर सिस्टम, 5 जैन मन्दिर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001	डीएल/14510	01.07.92 से 30.06.95 01.07.95 से 30.06.98 01.07.98 से 30.06.01 01.07.01 से 30.06.03 01.07.03 से 30.06.04 01.07.04 से 30.06.07	एनजेड/छूट/डीएलआई/2005/डीएल(उत्तरी)/14510(16)
3.	मैसर्स पाइयोनीयर ओवरसिस कॉरपोरेशन, बी-4, ग्रेटर नोएडा इनक्लेव पार्ट-11, नई दिल्ली-110048	डीएल/9559	01.09.95 से 31.08.98 01.09.98 से 31.08.01 01.09.01 से 31.08.04 01.09.04 से 31.08.07	एनजेड/छूट/डीएलआई/2005/डीएल(उत्तरी)/9559(66)
4.	मैसर्स जी.एस. फार्मब्यूटर्स प्रा.लि., 1322-23, अंसल टावर-38, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	डीएल/19634	01.10.04 से 30.09.07	एनजेड/छूट/डीएलआई/2005/डीएल(उत्तरी)/19634(70)
5.	मैसर्स इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लि., सरिता विहार, दिल्ली-मथुरा रोड, नई दिल्ली-110076	डीएल/19293	01.05.03 से 30.04.06	एनजेड/छूट/डीएलआई/2005/डीएल(उत्तरी)/19293(72)

1	2	3	4	5
6.	मैसर्स शिवालिक बिमैटल कंट्रोल लि., एच-2, सुनेजा चैम्बर, दूसरा तल, अलकनंदा कर्मशियल कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110019	डीएल/18830	01.10.04 से 30.09.07	एनजेड/क्यू/डीएलआई/2005/डीएल(उत्तरी)/18830(73)
7.	मैसर्स इशॉन इण्टरनेशनल, एक्स-19, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली-110020	डीएल/12939	01.07.05 से 30.06.08	एनजेड/क्यू/डीएलआई/2005/डीएल(उत्तरी)/12939(93)
8.	मैसर्स पर्ल इण्टरनेशनल टूर एण्ड ट्रैवल्स लि., 901-904, रोहित हाउस, 3 टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001	डीएल/15439	01.10.98 से 30.09.01 01.10.01 से 30.09.04 01.10.04 से 30.09.07	एनजेड/क्यू/डीएलआई/2005/डीएल(उत्तरी)/15439(94)
9.	मैसर्स उषा इण्टरनेशनल लि., सूर्य किरण बिल्डिंग, 19, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली-110001	डीएल/2481	01.04.04 से 31.03.07	एनजेड/क्यू/डीएलआई/2005/डीएल(उत्तरी)/2481(96)
10.	मैसर्स डीएलएफ यूनिवर्सल लि., डीएलएफ सेन्टर, संसद मार्ग नई दिल्ली-110001	डीएल/6643	01.05.05 से 30.04.08	एनजेड/क्यू/डीएलआई/2005/डीएल(उत्तरी)/6643(98)
11.	मैसर्स सतनाम ओवरसीज़ लि., 201, वीप्स सेन्टर, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली-110048	डीएल/15105	01.07.02 से 30.06.05 01.07.05 से 30.06.08	एनजेड/क्यू/डीएलआई/2005/डीएल(उत्तरी)/15105(101)
12.	मैसर्स शशि एक्सपोर्ट्स प्रा. लि., 3262, रणजीत नगर, नई दिल्ली-110008	डीएल/5193	01.10.01 से 30.09.04 01.10.04 से 30.09.07	एनजेड/क्यू/डीएलआई/2005/डीएल(उत्तरी)/5193(102)
13.	मैसर्स अशोक ब्रदर्स इम्पेक्स प्रा. लि., 12, सिंधिया हाउस, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001	डीएल/3476	01.09.89 से 31.08.92 01.09.92 से 31.08.95 01.09.95 से 31.08.98 01.09.98 से 31.08.01 01.09.01 से 31.08.04 01.09.04 से 31.08.07	एनजेड/क्यू/डीएलआई/2005/डीएल(उत्तरी)/3476(131)
14.	मैसर्स करन मोटर्स प्रा. लि., बी-67, फेस-I, मायापुरी इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110064	डीएल/12227	01.11.05 से 31.10.08	एनजेड/क्यू/डीएलआई/2005/डीएल(उत्तरी)/12227(132)
15.	मैसर्स आल इण्डिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, मैनेजमेंट हाउस, 14 इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	डीएल/2805	01.09.05 से 31.08.08	एनजेड/क्यू/डीएलआई/2005/डीएल(उत्तरी)/2805(133)
16.	मैसर्स ब्रिटानिया इण्डस्ट्रियल लिमिटेड, 33 लॉरेस रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110035	डीएल/154	01.03.95 से 28.02.98 01.03.98 से 28.02.01 01.03.01 से 28.02.04 01.03.04 से 28.02.07	एनजेड/क्यू/डीएलआई/2005/डीएल(उत्तरी)/154(134)

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।
2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण के प्रभार का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
4. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।
5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम संबंधित जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा।
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है तो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधिवारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी संबंधित जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि से कम हो जाये तो रद्द किया जा सकता है।
10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो संबंधित जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पॉलिसी को व्यगृत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गयी होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों का बीमा कृत राशि संदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा में संबंधित जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

त्रिलोक चन्द

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
(उत्तरी क्षेत्र)

सं. 2/1959/डीएलआई/ई.एक्स./89/भाग-II/02--जहाँ अनुसूची-I में उल्लिखित नियोजकों ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप धारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूँकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है, कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम/मैक्स न्यूयार्क लाइफ इंशोरेंस की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता है, जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची-1

क्रम सं.	स्थापना का नाम एवं पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	भारत सरकार द्वारा दी गई अधिसूचना की संख्या व दिनांक
1.	मैसर्स क्वालिटी ग्रैड्स प्रा.लि.,	डीएल/13790	01.03.05 से 28.02.08	2/1959/डीएलआई/एक्स./89/भाग-I/1892 दिनांक 27.01.2004
2.	मैसर्स सेवा इन्टरप्राइसिस	डीएल/8616	01.10.99 से 30.09.02 01.10.02 से 30.09.05	2/1959/डीएलआई/एक्स./89/भाग-I/36025 दिनांक nil
3.	मैसर्स लुमैक्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	डीएल/1379	01.09.05 से 31.08.08	2/1959/डीएलआई/एक्स./89/भाग-II/1892 दिनांक 27.01.2004
4.	मैसर्स वैश को-ऑपरेटिव आदर्श बैंक अलमिटेड	डीएल/7624	01.12.03 से 30.11.06	2/1959/डीएलआई/एक्स./89/भाग-I/1000 दिनांक 28.05.2002
5.	मैसर्स सिसटोपीक लेबोरेटरीज प्रा. लि.	डीएल/12804	01.06.99 से 31.05.02 01.06.02 से 31.05.05 01.06.05 से 31.05.08	2/1959/डीएलआई/एक्स./89/भाग-I/2767 दिनांक 17.11.2000
6.	मैसर्स ज्यूपीटर पब्लिसिटी कम्पनी	डीएल/8614	24.06.00 से 23.06.03 24.06.03 से 23.06.06	2/1959/डीएलआई/एक्स./89/भाग-II/1736 दिनांक 10.10.2000
7.	मैसर्स सुपीरियर काफ्टस	डीएल/5166	01.03.01 से 28.02.04 01.03.04 से 28.02.07	2/1959/डीएलआई/एक्स./89/भाग-II/2106 दिनांक 05.07.1999
8.	मैसर्स ब्रिलेक्स कैमिकल्स अमृतसर	पीएन/3771	01.09.04 से 31.08.05	2/1959/डीएलआई/एक्स./89/भाग-I/554 दिनांक 14.07.2004
9.	मैसर्स कानपुर प्लास्टिपैक लिमिटेड	यूपी/5067	01.01.05 से 31.02.07	2/1959/डीएलआई/एक्स./89/भाग-II/1869 दिनांक 12.01.2004

अनुसूची-II

- उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयु समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।
- नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करेंगे।
- सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण के प्रभार का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
- नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जायेगा तब

संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

- यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम संबंधित जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा।
- यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।
- सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम

है तो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहीं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टि कोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी संबंधित जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि से कम हो जाये तो रद्द किया जा सकता है।
10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो संबंधित जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पॉलिसी को व्यंगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गयी होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों का बीमा कृत राशि संदाय तत्परता से

तथा प्रत्येक दशा में संबंधित जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

त्रिलोक चन्द
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
(उत्तरी क्षेत्र)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

दिनांक 22 मार्च 2007

सं. आई.जी./प्रशा.(जी)/रजि./2003/753--इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अधिनियम 1985 (1985 की सं. 50) के अनुभाग 25(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने 22.06.2006 को आयोजित अपनी 87वीं बैठक में कुलसचिव की स्थिति से संबंधित इग्नू अधिनियम की संविधि 5(7) के उपखंड (ख) और (घ) में संशोधन किया है। इसे कुलाध्यक्ष के रूप में भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त है। यह अनुमोदन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 27 फरवरी, 2007 के पत्र संख्या एफ- 5-99/2006/डी.एल. द्वारा प्राप्त हुआ है।

संशोधन के बाद संबंधित खंड इस प्रकार पढ़े जाएंगे :

संविधि 5(7)(ख) और (घ)

(ख) सूचना जारी करेगा और प्रबंध बोर्ड और बोर्ड द्वारा अनुमोदित समितियों की बैठक का आयोजन करेगा।

(घ) प्रबंध बोर्ड की कार्यवाहियों का आयोजन करेगा और पत्राचार करेगा।

दलीप कुमार तेन्नी
कुलसचिव

STATE BANK OF INDIA

Mumbai-400021, the 2nd April 2007

NOTICE

The 52nd Annual General Meeting of the Shareholders of the State Bank of India will be held at the "Y. B. Chavan Centre", General Jagannath Bhosale Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021 (Maharashtra) on Monday, the 25th June, 2007 at 3.30 P.M. for transacting the following business :—

"to receive the Central Board's Report, Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank made up to the 31st March, 2007 and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

O.P. BHATT
Chairman

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 20th March 2007

No. U-16/53/2003/Med.II/(Guj).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Centres as stated below for areas to be allocated by Sr. State Medical Commissioner, (Gujarat) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Sl. No.	Name	Period	Name of Centre
1.	Dr. P. J. Shrimali	20.2.2007 to 19.2.2008	Kalol (Gujarat)

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

The 23rd March 2007

No. U-16/53/2003/Med.II/(Punjab).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me

vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Centres as stated below for areas to be allocated by Sr. State Medical Commissioner, Chandigarh (Punjab) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Sl. No.	Name	Period	Name of Centre
1.	Dr. Lehmbur Singh	12.2.2007 to 11.2.2008	Amritsar, Chhaharta, Khalsa, Verka, Khalsa, Goindwal, Tarantaran, Jandiala.

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

New Delhi-58, the 29th March 2007

No. 2/1959/DLI/Ex/89/Part-I/02.—Whereas the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for Exemption under Sub Section 2(A) of Section 17 of the employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyments of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India/Allianze Bajaj Life Insurance Co. Ltd./Met Life India Group Life Insurance/AVIVA Life Insurance/ING Vysya Life Insurance/Max New York Life Insurance/TATA AIG Life Insurance Ltd. in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers offered by Sub Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby Exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi from the operation of said scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

S. No.	Name of the Estt. with Address	PF Code	Period of Exemption	ACC (North Zone) File Number
1	2	3	4	5
1.	M/s. Vayu Bodhan Upkaran Pvt. Ltd., A-292/1, Okhla Indl. Area, Phase-1, New Delh-110020	DL/8842	01.12.94 to 30.11.95	NZ/Exem/DLI/2005/DL(N)/8842(1)
2.	M/s. Flextronics Software Systems, 5 Jain Mandir Marg, Connaught Place, New Delhi-110001	DL/14510	01.07.92 to 30.06.95 01.07.95 to 30.06.98 01.07.98 to 30.06.01 01.07.01 to 30.06.03 01.07.03 to 30.06.04 01.07.04 to 30.06.07	NZ/Exem/DLI/2005/DL(N)/14510(16)
3.	M/s. Pioneer Overseas Corporation, B-4, Greater Kailash Enclave, Part-II, New Delhi-110048	DL/9559	01.09.95 to 31.08.98 01.09.98 to 31.08.01 01.09.01 to 31.08.04 01.09.04 to 31.08.07	NZ/Exem/DLI/2005/DL(N)/9559(66)
4.	M/s. G. S. Pharmbutors Pvt. Lt.d., 1322-23, Ansal Towers, 38, Nehru Place, New Delhi-110019	DL/19634	01.10.04 to 30.09.07	NZ/Exem/DLI/2005/DL(N)/19634(70)
5.	M/s. Indraprastha Medical Corporation Ltd., Sarita Vihar, Delhi-Mathura Road, New Delhi-110076	DL/19293	01.05.03 to 30.04.07	NZ/Exem/DLI/2005/DL(N)/19293(72)
6.	M/s. Shivalik Bemetal Controls Ltd., H-2, Suneja Chambers, , 2nd Floor, Alakananda Commercial Complex, New Delhi-110019.	DL/18830	01.10.04 to 30.09.07	NZ/Exem/DLI/2005/DL(N)/18830(73)
7.	M/s. Ishan International, X-19, Okhla Industrial Area Phase-II, New Delhi-110020	DL/12939	01.07.05 to 30.06.08	NZ/Exem/DLI/2005/DL(N)/12939(93)
8.	M/s. Pearl International Tours & Travels Ltd. 901-904, Rohit House, 3, Tolstoy Marg, New Delhi-110001	DL/15439	01.10.98 to 30.09.01 01.10.01 to 30.09.04 01.10.04 to 30.09.07	NZ/Exem/DLI/2005/DL(N)/15439(94)
9.	M/s.Usha International Ltd., Surya Kiran Building, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001	DL/2481	01.04.04 to 31.03.07	NZ/Exem/DLI/2005/DL(N)/2481(96)
10.	M/s.DLF Universal Ltd., DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi-110001	DL/6643	01.05.05 to 30.04.08	NZ/Exem/DLI/2005/DL(N)/6643(98)
11.	M/s. Satnam Overseas Ltd., 201, Vipps Centre, Masjid Moth, Greater Kailash-II, New Delhi-110048	DL/15105	01.07.02 to 30.06.05 01.07.05 to 30.06.08	NZ/Exem/DLI/2005/DL(N)/15105(101)

1	2	3	4	5
12.	M/s. Shashi Exports Pvt. Ltd., 3262, Ranjeet Nagar, New Delhi-110008	DL/5193	01.10.01 to 30.09.04 01.10.04 to 30.09.07	NZ/Exem/DLI/2005/DL(N)5193(102)
13.	M/s. Ashok Brothers Impex Pvt. Ltd., 12 Scindia House, Connaught Circus, New Delhi-110001	DL/3476	01.09.89 to 31.08.92 01.09.92 to 31.08.95 01.09.95 to 31.08.98 01.09.98 to 31.08.01 01.09.01 to 31.08.04 01.09.04 to 31.08.07	NZ/Exem/DLI/2005/DL(N)3476(131)
14.	M/s. Karan Motors Pvt Ltd., B-67, Phase-I, Maya Puri Industrial Area, New Delhi-110064	DL/12227	01.11.05 to 31.10.08	NZ/Exem/DLI/2005/DL(N)12227(132)
15.	M/s. All India Management Association, Management House, 14, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003	DL/2805	01.09.05 to 31.08.08	NZ/Exem/DLI/2005/DL(N)2805(133)
16.	M/s. Britannia Industries Ltd., 33, Lawrance Road, Industrial Area, New Delhi-110035	DL/154	01.03.95 to 28.02.98 01.03.98 to 28.02.01 01.03.01 to 28.02.04 01.03.04 to 28.02.07	NZ/Exem/DLI/2005/DL(N)154(134)

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause(a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of Insurance premium, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the notice board of the establishments, copy of the Rules of Group Insurance Scheme as approved by the Central Govt./Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.
5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of an establishment Exempted under the said Act is employed in his

establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Insurance Company.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain his point of view.

9. Therefore, any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Insurance Company as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the Exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Insurance Company and the policy is allowed to lapse, the Exemption shall be liable to be cancelled.
11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for the payment of Insurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Insurance Company shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s), legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

TRILOK CHAND

Addl. Central P. F. Commissioner (North Zone)

No. 2/1959/DLI/Ex/89/Part-II/02—Whereas the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (herein after referred to as the said establishment) have applied for Exemption under Sub Section 2(A) of Section 17 of the employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyments of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India/Max New York Life Insurance in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt of India, the Ministry of Labour/CPFC notification No. and date shown against the name of each of the said establishments subject to the conditions specified in schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby Exempt each of the Establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name of the Estt. with Address	PF Code	Period of Extension of Exemption	No. & Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/extended
1	2	3	4	5
1.	M/s. Kwaliti Threads Pvt. Ltd.	DL/1307	01.03.05 to 28.02.08	2/1959/DLI/Ex/89/Pt.-I/1892 Dated 27.01.2004
2.	M/s. Sava Enterprises	DL/8616	01.10.99 to 30.09.02 01.10.02 to 30.09.05	2/1959/DLI/Ex/89/Pt.-I/36025 Dated Nil
3.	M/s. Lumax Industries Ltd.	DL/1379	01.09.05 to 31.08.08	2/1959/DLI/Ex/89/Part.-II/1892 Dated 27.01.2004
4.	M/s. Vaish Cooperative Adarsh Bank Ltd.	DL/7624	01.12.03 to 30.11.06	2/1959/DLI/Ex/89/Pt.-I/1000 Dated 28.05.2002
5.	M/s. Systopic Laboratories Pvt. Ltd.	DL/12804	01.06.99 to 31.05.02 01.06.02 to 31.05.05 01.06.05 to 31.05.08	2/1959/DLI/Ex/89/Pt.-I/2767 Dated 17.11.2000
6.	M/s. Jupiter Publicity Co.	DL/8614	24.06.00 to 23.06.03 24.06.03 to 23.06.06	2/1959/DLI/Ex/89/Pt.-II/1736 Dated 10.10.2000
7.	M/s. Superior Crafts	DL/5166	01.03.01 to 28.02.04 01.03.04 to 28.02.07	2/1959/DLI/Ex/89/Pt.-I/2106 Dated 05.07.1999

1	2	3	4	5
8.	M/s. Brillex Chemicals Amritsar	PN-S/3771	01.09.04 to 31.08.05	2/1959/DLI/Ex/89/Pt.-I/554 Dated 14.07.2004
9.	M/s.Kanpur Plastipack Ltd.,	UP/5067	01.01.05 to 31.12.07	2/1959/DLI/Ex/89/Pt.-II/1869 Dated 12.01.2004

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause(a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of Insurance premium, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the notice board of the establishments, copy of the Rules of Group Insurance Scheme as approved by the Central Govt./Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.
5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of and establishment Exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Insurance Company.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employee as compensation.
8. No amendment of the provisions the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain his point of view.
9. Therefore, any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Insurance Company as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the Exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Insurance Company and the policy is allowed to lapse, the Exemption shall be liable to be cancelled.
11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for the payment of Insurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Insurance Company shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s), legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect.

TRILOK CHAND

Addl. Central P. F. Commissioner (North Zone)

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi-110068, the 22nd March 2007

No. IG/Admn(G)/Registrar/2003/753—In exercise of the powers vested in it under the provisions of Section 25(2) of

the IGNOU Act, 1985 (No. 50 of 1985), the Board of Management of the University at its 87th meeting held on 22.06.2006 had made amendments to Sub-clauses (b) & (d) of Statute 5(7) of IGNOU Act concerning the position of the Registrar. This has the approval of the President of India in his capacity as Visitor of the University as conveyed under the Ministry of Human Resource Development Letter No. F. 5-99/2006-DL dated 27th February, 2007.

After amendments, the relevant clauses read as :

Statute 5(7)(b) & (d)

(b) issue notices and convene meetings of the Board of Management and of the committees appointed by the Board;

(d) conduct the official proceedings and correspondence of the Board of Management.

DALIP KUMAR TETRI
Registrar